

December 06, 2020

The Manager – Listing Compliance
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001

The Manager- Listing Compliance
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051

Scrip code: 532640

Symbol: CYBERMEDIA

Sub.: **Newspaper Advertisement regarding 38th Annual General Meeting, e-Voting and Book Closure Dates**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of advertisement published in the newspapers, 'Financial Express'-English Edition and 'Jansatta'-Hindi Edition, both dated December 06, 2020, with respect to 38th Annual General Meeting, e-Voting and Book Closure Dates, of the Company.

The advertisement copies are also available on the Company's website: www.cybermedia.co.in.

This is for your information and record.

Yours truly,

For Cyber Media (India) Limited



Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264

NTPC powers awareness via comic route

Currently, the total installed capacity of the power behemoth stands at 62,910 mega-watt (MW), comprising 1,070 MW of renewable energy-based plants. By 2032, it plans to have a total power production capacity of 1,30,000 MW and 30% of this would be non-thermal energy based. In another 12 years, NTPC wants to have a base of 32,000 MW renewables, 5,000 MW hydro and another 2,000 MW of nuclear power plants.

"With this comic strip we at NTPC wish to raise awareness among children, who are the future of this country, about the complete process of electricity generation, from how it reaches the switch inside their house to light the lights," a senior NTPC official told FE, adding that "we also have tried to raise awareness on the judicious consumption of electricity and the efforts being put to ensure a greener and cleaner environment."

Unlike other contemporary elementary handbooks that intend to initiate children on the complex issue of electricity generation, transmission and distribution, the comic book at no point of time vilifies fossil fuel-based power systems. Keeping itself firmly gripped with the economic realities of India, the comic book narrative subtly insinuates that coal-based power will be the mainstay of electricity generation for the years to come, although renewable power sources have not been snubbed at anywhere in the text. Pretty prudently, the comic book has been successful in staying away from the clichéd "renewables vs thermal" debate which inevitably tries to portray one to be better than the other. Comics have traditionally been a way to engage children while breaking down complex concepts into simple storylines. "At our end, we definitely saw a shift in terms of how brands wanted to talk to their customers about ten years ago," Kuriakose Vaisian, editorial director at Amar Chitra Katha, said. "There is a clear switch from traditional one-page advertisements to more story-telling, more gamification," Vaisian remarked.

After boom, apartment sales could go bust

The ratings agency expects the momentum to continue in the second half of FY21.

"That said, while the overall rebound in real estate demand in October was faster than envisaged earlier, its sustenance post the festive season will be a thing to monitor. On full-year basis, we estimate overall primary sales to witness a decline of 40-50% in top 10 cities. With ready-to-move inventory constituting 10-20% of total inventory in key cities and upcoming supply this fiscal at similar levels, capital values are likely to remain under pressure at least for the rest of this fiscal," CRISIL added.

Anarock Property Consultants chairman Anuj Puri expressed similar views. "What we are seeing right now is an organic pent-up demand driven by the desire to own homes, further accelerated by schemes and offers."

Speaking with FE, he said "As per Anarock research, we anticipate housing sales in the ongoing quarter to see a 35% rise against the preceding Q3 2020 in the top seven cities collectively. In such a scenario, we would see housing sales in the whole of 2020 to rebound to over 50% of the overall sales made in 2019."

However, figures so far

From the Front Page

seem less optimistic. Roughly 2,61,500 units were sold in 2019 across the top seven cities. During Q3 2020 (calendar year), housing sales stood at around 29,520 units compared to 45,200 in Q1 2020. Sales in Q2 2020 stood at a mere 12,730 units. In November, Iera in a report also pointed out that residential segment witnessed a sharp recovery in Q2 FY21, post a severe decline in Q1 FY21. Overall housing sales volume witnessed a Y-o-Y decline of 50% in H1 FY21 across the top eight cities. However, sales volume bounced back considerably with a Q-o-Q growth of 60%, recorded across property markets in the second quarter of the current fiscal. It was primarily driven by a gradual unlocking of the economy, pent-up demand and improved affordability on the back of reduced home loan rates and attractive payment schemes/discounts, it said.

The ratings agency had earlier expected a 45% overall decline in sales volumes in FY21. "However, post the lows in Q1 FY21, sales across the top eight cities rebounded in Q2 FY21, indicating some green shoots of normalisation. With some further recovery expected in H2, ICRA is revising its earlier estimate of sales volume decline in FY21 to 35-40%," it added.

Vaccinated minister +ve; got only one dose

The 67-year-old minister was given the first shot on November 20. Stressing that experts would know better about how the vaccine works, Vij said he has sore throat, fever and body ache. Bharat Biotech also defended its vaccine, Covaxin, terming it safe and efficacious. "Covaxin clinical trials are based on a two-dose schedule, given 28 days apart. The vaccine efficacy will be determined 14 days post the second dose," Bharat Biotech said in a statement.

BSNL low in performance, but high in ambition

Analysts said BSNL and MTNL may have sounded ambitious in their responses for fixing minimum speeds at 2 mbps, but if that happens, they may be the worst sufferers. For instance, in the wireline segment, BSNL has 7.85 million broadband customers, followed by Bharti Airtel which has 2.53 million users. But as majority of BSNL's wired broadband connections run on ADSL (asymmetric digital subscriber line) using copper lines, ensuring a higher speed for all users could be difficult, espe-

cially in smaller cities and towns. BSNL has fibre to home (FTTH) connections but it is limited to only few bigger cities.

Reliance Jio and Bharti Airtel are mostly providing FTTH connections and also putting in massive investments in it, hence ensuring higher speeds is not a problem. In the wireless segment, BSNL does not currently offer 4G services but has 3G services which is also categorised as wireless broadband. During the various speed checks by global analytical firms like Ookla, Opensignal as well as Trai, the speed on BSNL network usually lags behind that of private operators. Private operators in their comments to Trai have highlighted that affordability and availability of broadband should be the topmost priority of government and till the time infrastructure becomes omnipresent, the current definition should be continued.

No breakthrough; next meet on Dec 9

The changes offered include empanelment of traders with Centre's agency to buy from outside mandis, removal of the current clause for dispute resolution to allow farmers to move court, easing of penalty on and decriminalisation of stubble burning.

While Saturday's meeting of farmer unions with agriculture minister Narendra Singh Tomar and food minister Piyush Goyal went on for over four hours, the talks had reached a virtual deadlock at the start of the meeting itself, with the farmers making it clear that they won't accept any formula other than repeal of the laws. Earlier in the day, Modi had a meeting with senior ministers to finalise the government's stand.

The fifth round of meetings, in fact, saw a hardening of stand by farmers, as at one point they sat in 'silent protest' for 30 minutes, demanding to know the government's position on their main demand for laws' rollback, after which Tomar huddled with officials and announced that the government would come out with 'concrete proposals' in the next meeting and asked for suggestions from the unions.

There are also indications that talks could happen even earlier than Wednesday if the government is able to firm up its offer so that the Bharat bandh called by farmers in December 8 could be averted, sources said. Briefing media after the meeting, Tomar said: "The MSP will remain there

and there is no need for anyone to fear (that it will go). The Prime Minister and I have said this on the floor of Parliament. The Centre will also do whatever required work to strengthen APMC mandis and the fear that these will close down is unfounded. We do not want to interfere in APMC mandis nor the laws have any such objective. We wanted some more specific suggestions from farmers leaders so that we could have some

proposals in the next meeting. I am still hopeful that they will send us such suggestions." The protests, already over ten days long, are spearheaded by farmers from Punjab who fear that APMC mandis and the MSP system, of which they are biggest beneficiaries would wither away as a result of the reformist laws. Sources from farmer groups told FE that farmers from other parts of the country, including Uttarakhand and Rajasthan are reaching the borders of the national capital in large numbers to join the protests.



GATI LIMITED
CIN: L63011TG1995PLC020211
Regd. Office : Plot No. 20, Survey No. 12, Kothaguda, Kondapur, Hyderabad - 500 084 | Tel: (+91)-040-2311 2318 | Fax: (+91)-040-2311 2318 | E-mail: investor.services@gati.com | Website: www.gati.com

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE
NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Gati Limited ("Company") (CIN: L63011TG1995PLC020211), will be held on **Monday, December 28, 2020 at 3:00 P.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility ONLY**, to transact the businesses, as set out in the notice convening the said 25th AGM of the Company.
In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the 25th AGM will be held through VC/OAVM without physical presence of the Members and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rules made under and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") to transact the businesses as set out in the Notice of the 25th AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Further, pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of Listing Regulations, the Company has decided to close its Register of members and share transfer books of the Company from Tuesday, December 22, 2020 to Monday, December 28, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 25th AGM.
In compliance with the above circulars the Annual Report for the Financial Year 2019-20 and Notice of the 25th AGM are being sent electronically to those Members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial owners as on close of business hours on Friday, November 27, 2020 and who have registered their email addresses with the Depository Participants or with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company ("R&T Agent") or with the Company. The Annual report for the Financial Year 2019-20 and Notice of the 25th AGM is also available on the Company's website at www.gati.com, website of stock exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of e-voting facility provider National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
Manner of Registering/Updating e-mail addresses is as below:
Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company are requested to register/update their email addresses by sending a duly signed request letter to the Company's R & T Agent viz. Link Intime India Private Limited at their below mentioned address by providing Folio No. and Name of the Member or may also send an e-mail to Ms. T.S. Maharani, Company Secretary at investor.services@gati.com.
Link Intime India Private Limited
(Link, Gati Limited)
C-101, 24th Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 Maharashtra
Tel. No.: 18003454001
E-mail: ml.helpdesk@linkintime.co.in
Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their relevant Depository Participants.
Pursuant to Section 103 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("the Rules") and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has engaged the services of NSDL as agency for providing e-voting facility.
a) The Company has provided the facility to the Members to cast their vote on the matters set forth in 25th AGM Notice, either by way of "remote e-voting" facility, prior to the 25th AGM or by way of electronic voting system during the 25th AGM. The instructions for joining the 25th AGM and the manner of participation and voting are provided in the Notice of the 25th AGM.
b) The manner of voting by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses has been provided in the Notice of the 25th AGM.
c) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **Cut-off date i.e., Monday, December 21, 2020 only shall be entitled** to avail the facility of remote e-voting or participation at the 25th AGM and voting through electronic voting system threat.
d) Remote e-voting facility to the Members will be available during the following period (inclusive of both days):

Time, day and Date of commencement of remote e-voting	9.00 A.M. (IST) on Wednesday, December 23, 2020
Time, day and Date of end of remote e-voting	5.00 P.M. (IST) on Sunday, December 27, 2020


e) Any person who has become a member of the Company after dispatch of the Notice of the 25th AGM and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password for e-voting by sending e-mail, intimating DP ID and Client ID / Folio No. at reginfo@nsdl.co.in with a copy to investor.services@gati.com. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice of the 25th AGM which is available on Company's website and NSDL's website. However, if you are already registered with NSDL for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your vote.
f) The Remote e-voting facility shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Sunday, December 27, 2020.
g) Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the 25th AGM, to the Members who are attending the 25th AGM and have not already cast their vote(s) through remote e-voting.
h) **Member who have cast their vote by remote e-voting may also attend the 25th AGM, but shall not be allowed to vote again at the 25th AGM.**
i) In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and the e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.co.in. For any grievances relating to voting by electronic means, members may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th floor, Kamala Mills compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at amv@nsdl.co.in, Tel.No. 022-2494360.
Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the 25th AGM and in particular, instructions for joining the 25th AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through electronic voting system during the 25th AGM.

For GATI LIMITED
Sd/-
T. S. Maharani
Company Secretary
M. No. F0606



CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED
CIN: L92114DL1982PLC014334
Registered office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491320
Corporate office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001. Tel.: 0124-4822222
Email: investorcare@cybermedia.co.in | Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING
Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of December, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses as stated in the Notice dated November 24, 2020.
In view of continued Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has issued Circular dated May 05, 2020 read with its Circulars dated April 08, 2020 and April 13, 2020 permitted holding of AGM through VC or OAVM without physical presence of members at a common venue. In compliance of MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 alongwith SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company is being held through VC/OAVM.
In compliance with the Act, the Rules made thereunder and the above Circulars, copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent to all Members of the Company to their email addresses whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agent (RTA). The electronic dispatch of the Notice and Annual Report has been completed on December 04, 2020. The Annual Report alongwith Notice of AGM is also available on Company's website: www.cybermedia.co.in, website of stock exchanges, BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of Link Intime India Private Limited ("LIPL"), www.insta.vote.linkintime.co.in.
Instructions for remote e-voting
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its members, the facility to cast their votes electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM, proposed to be transacted at the AGM to be held on December 30, 2020. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 38th AGM shall be transacted through electronic means only. The details of remote e-voting are as under:
1. The remote e-voting shall commence from Sunday, December 27, 2020 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, December 29, 2020 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter.
2. The members who have not cast their vote through remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during AGM.
3. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
4. Member who acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date (i.e. December 23, 2020) may obtain the User ID and Password by sending at email id: insta.vote@linkintime.co.in. However, if the person is already registered with LIPL for remote e-voting, then the existing user id and password can be used for casting the vote.
5. The detailed procedure for obtaining user id and password and the instructions on the manner in which the e-voting is to be cast, is also provided in the Notice of AGM.
6. Members may contact for any query or inconvenience or grievances, if any, in voting through electronic mode at the help line of LIPL at 022-49186000 or email at enotices@linkintime.co.in or insta.vote@linkintime.co.in.




CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED
CIN: L92114DL1982PLC014334
Registered office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-26491320
Corporate office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram-122001. Tel.: 0124-4822222
Email: investorcare@cybermedia.co.in | Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING
Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of December, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Circular(s) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the businesses as stated in the Notice dated November 24, 2020.
In view of continued Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has issued Circular dated May 05, 2020 read with its Circulars dated April 08, 2020 and April 13, 2020 permitted holding of AGM through VC or OAVM without physical presence of members at a common venue. In compliance of MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 alongwith SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company is being held through VC/OAVM.
In compliance with the Act, the Rules made thereunder and the above Circulars, copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent to all Members of the Company to their email addresses whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Transfer Agent (RTA). The electronic dispatch of the Notice and Annual Report has been completed on December 04, 2020. The Annual Report alongwith Notice of AGM is also available on Company's website: www.cybermedia.co.in, website of stock exchanges, BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of Link Intime India Private Limited ("LIPL"), www.insta.vote.linkintime.co.in.
Instructions for remote e-voting
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its members, the facility to cast their votes electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM, proposed to be transacted at the AGM to be held on December 30, 2020. All the Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 38th AGM shall be transacted through electronic means only. The details of remote e-voting are as under:
1. The remote e-voting shall commence from Sunday, December 27, 2020 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, December 29, 2020 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter.
2. The members who have not cast their vote through remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during AGM.
3. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
4. Member who acquired shares after sending the Annual Report through electronic means and before the cut-off date (i.e. December 23, 2020) may obtain the User ID and Password by sending at email id: insta.vote@linkintime.co.in. However, if the person is already registered with LIPL for remote e-voting, then the existing user id and password can be used for casting the vote.
5. The detailed procedure for obtaining user id and password and the instructions on the manner in which the e-voting is to be cast, is also provided in the Notice of AGM.
6. Members may contact for any query or inconvenience or grievances, if any, in voting through electronic mode at the help line of LIPL at 022-49186000 or email at enotices@linkintime.co.in or insta.vote@linkintime.co.in.

For Cyber Media (India) Limited
Sd/-
Anoop Singh
Company Secretary

Place: Gurugram
Date : December 04, 2020



ProYuga Advanced Technologies Limited
CIN: U74999MH2017PLC296222
Regd Office : 1609, Lodha Supremus Powai, Sakli Vihar Road, Opp MTNL Office, Mumbai-400072, Maharashtra, India
Tel.No.: 8008865855 | E-mail ID : company@proyuga.tech | Website : <https://www.proyuga.tech/>

INFORMATION REGARDING THE 3RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)
NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made there under and General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), the 03rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of ProYuga Advanced Technologies Limited will be held on Thursday, December 31, 2020 at 10.00 A.M. through video conferencing facilities without any physical presence of Members in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the MCA Circulars. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Pursuant to the General Circular as mentioned above, the Annual Report will be released by December 08, 2020 by sending e-mails to the members who have registered their e-mail ID with the Company / Depositories for receiving the communications on email. The Annual Report will also be available on the website of the Company <https://www.proyuga.tech/>. No hard copies of the Annual Reports will be made available to the Members. Manner to register/update email addresses: Members who have not registered their e-mail address with the Company or their Depository Participant are requested to register their e-mail address in the following manner for receiving Annual Report and dividend, if any declared by the Company from time to time. For Physical Shareholders: Send Scanned copy of the following documents to the RTA of the Company i.e. KFin Technologies Private Limited by email to enward.ris@kfintech.com. a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address b. Copy of the Share Certificate c. Self-attested copy of the PAN Card d. Self-attested copy of any document (such as Aadhaar card, Driving License, Election Identity card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the Company. Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account details: a. Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend b. Bank account type, Account Number, MICR code number & IFSC code c. Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder. For Electronic Shareholders: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account as per the process advised by your DP. The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID, can access the details of e-voting system and vote on the e-voting system as per the procedure which will be mentioned in the AGM Notice. The above information is issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars.
This newspaper intimation will also be available on the Company's website at proyuga.tech.

For and on behalf of
ProYuga Advanced Technologies Limited,
Sd/-
Prince Pandey
Company Secretary
Membership No.: A59040

Place : Mumbai
Date : December 06, 2020



Muthoot Finance Ltd
Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers
Opposite Saritha Theatre Complex, Ernakulam, Kerala 682018, India.
Telephone: (+91 484) 239 4712; Fax : (+91 484) 239 6506
Email: cs@muthootgroup.com; Website: www.muthootfinance.com
CIN: L65910KL1997PLC011300

NOTICE
Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IETF) Authority.
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (the "Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016 and amendments made thereto.
The Company has, vide letter dated 05th December 2020 communicated to the concerned shareholders details of shares which are liable to be transferred during the financial year 2020-21 to IETF Authority under the Rules ("Relevant Shares") and a list of such shareholders is uploaded on Company's website at www.muthootfinance.com. Shareholders are requested to verify.
Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the Relevant Shares transferred to IETF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IETF Authority by following the procedure prescribed under the Rules.
The concerned shareholders, holding Relevant Shares in physical form and whose Relevant Shares are liable to be transferred to IETF Authority, may note that upon such transfer, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-transferable. The concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on the website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice for the purpose of transfer of Relevant Shares to IETF Authority pursuant to the Rules.
The concerned shareholders are requested to claim the unpaid/ unclaimed dividend amounts on or before 06th March 2021, failing which the Relevant Shares will be transferred to IETF Authority at an appropriate date as per procedure stipulated in the Rules, and no claims thereafter shall be made by the shareholders against the Company in respect of the Relevant Shares. In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at Link Intime India Pvt. Ltd., Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, Tel.No.: 0422-2314792, E-mail: iepf.shares@linkintime.co.in.

For Muthoot Finance Limited
Sd/-
George Alexander Muthoot
Managing Director



IDFC
IDFC MUTUAL FUND


Notice - Cum - Addendum No. 34 of 2020
Addendum to the Statement of Additional Information (SAI) of IDFC Mutual Fund and Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of IDFC Infrastructure Fund, IDFC Equity Savings Fund, IDFC Equity Opportunity - Series 4 and IDFC Multi Cap Fund (the Schemes)
A. Appointment of Key Personnel of IDFC Asset Management Company Limited ("the AMC"):
Notice is hereby given that Mr. Sachin Anand Rao Relekar has been appointed as a Key Personnel of the AMC with effect from December 7, 2020. Accordingly, following details of Mr. Sachin Anand Rao Relekar shall stand inserted under the section "Information on Key Personnel of the AMC" in SAI of IDFC Mutual Fund ("the Fund"):

Name & Designation	Age & Qualification	Brief Experience (past 10 years)
Mr. Sachin Anand Rao Relekar Senior Fund Manager - Equity	46 Years / Master of Management Studies (Finance), Mumbai University BE (Mechanical), Shivaji University, Kolhapur	Mr. Sachin joined IDFC AMC in December 2020 as Senior Fund Manager - Equity. He was earlier associated with LIC Mutual Fund Asset Management Limited as Chief Investment Officer (Equity) and Fund Manager from December 2012 to December 2020 and was managing various schemes of LIC Mutual Fund. Prior to this, he was associated with Tata Asset Management Company Limited from September 2007 to November 2012 as a Research Analyst, tracking sectors such as Infrastructure, Automotive, Mining and Metals sectors. (Total experience - 20 years)

B. Change in Fund Manager of the Schemes :
Notice is hereby given that the below mentioned schemes shall be managed by following fund managers, in addition to other schemes managed by them, effective December 8, 2020:

Name of the Scheme	Fund Manager(s)
IDFC Infrastructure Fund	Mr. Sachin Anand Rao Relekar
IDFC Equity Savings Fund	Equity Portion: Mr. Sachin Anand Rao Relekar and Mr. Yogik Pitti Debt Portion: Mr. Harshal Joshi
IDFC Equity Opportunity - Series 4	Mr. Sachin Anand Rao Relekar
IDFC Multi Cap Fund	Mr. Anoop Bhaskar and Mr. Sachin Anand Rao Relekar

Investors are requested to note that Mr. Viraj Kulkarni shall continue to manage overseas investments of the schemes which have a mandate to invest in overseas securities.
And the other provisions of the SAI of the Fund, SID & KIM of the Schemes except as specifically modified herein above, read with the addenda issued from time to time, remain unchanged.
This addendum forms an integral part of the SAI of the Fund and SID & KIM of the Schemes, read with the addenda issued from time to time.
Place : Mumbai
Date : December 04, 2020
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Crompton
Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
CIN : L31900MH2015PLC262254
Registered & Corporate Office: Tower 3, 1st Floor, East Wing, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070, India. Tel.: +91-22-6167 8499 Fax: +91-22-6167 8383
Website: www.crompton.co.in E-mail: crompton.investorrelations@crompton.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rules framed thereunder and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form on Saturday, December 5, 2020 to all the Members/Beneficial Owners whose names appear in the Company's Register of Members/ records of depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on the cut-off date i.e. Friday, November 20, 2020, for seeking approval of Members of the Company by postal ballot including voting by electronic means:
[a] through electronic mail to the Members whose email IDs are registered in the records with the Depositories as on cut-off date; [b] through permitted physical mode along with a self-addressed postage prepaid business reply envelope, to the Members whose email IDs are not registered,
For the under-mentioned Resolutions:
1. To approve the amendment in Crompton Employee Stock Option Plan 2019 ("ESOP 2019")
2. To approve increase in Authorised Share Capital of the Company
Details of Postal Ballot schedule are as follows:

Sr. No.	Particulars	Schedule
1.	Date & Time of commencement of voting	Tuesday, December 8, 2020 at 9.00 A.M.
2.	Date & Time of end of voting	Wednesday, January 6, 2021 at 5.00 P.M.
3.	Websites where Notice of Postal Ballot is available	1. www.crompton.co.in 2. www.evotingindia.com
4.	Contact details of the person responsible to address grievances relating to voting by postal ballot	Name: Ms. Pragya Kaul Designation: Company Secretary & Compliance Officer. Address: Crompton Greaves Consumer Electricals Limited, Tower 3, 1 st Floor, East Wing, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070. Tel. No.: 022-61678499 Email id: crompton.investorrelations@crompton.co.in
5.	Contact details of the person responsible to address grievances relating to voting by electronic means	Name: Mr. Rakesh Dalvi Designation: Manager Address: Central Depository Services (India) Limited 25 th Floor

